


विशेष रिपोर्ट

# बुलियन


( सितम्बर 2021 )



Moneywise. Be wise.



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

अगस्त महीने में, सोने ने ज्यादातर नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार किया क्योंकि फेड के रुख में कोई बदलाव नहीं होने की आशंका से वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी दर्ज किए जाने और डॉलर के मजबूत होने से कीमतों पर दबाव डाला, लेकिन महीने के अंत में कोमेक्स में कीमतें सपाट बंद हुईं क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल द्वारा महामारी-युग के प्रोत्साहनों में जल्द कटौती की आशंका से दूरी बनाए जाने के कारण सर्राफा की सुरक्षित निवेश के लिए मांग बढ़ने से कीमतों को थोड़ी मदद मिली। एमसीएक्स में सोने की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट हुई क्योंकि मजबूत घरेलू करंसी ने कीमतों को रिकवरी करने का मौका नहीं दिया। चांदी की कीमतों में मासिक आधार पर 6% से अधिक की गिरावट हुई क्योंकि बेस मेटल में कमजोरी से भी चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ा। ईटीएफ में बिकवाली और सीएफटीसी पोजीशन में कमी से भी कुल मिलाकर बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा।

## आउटलुक

सोने की कीमतें नरमी के रुख के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल संगोष्ठी में आर्थिक समर्थन को कम करने की समयसीमा पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। मुद्रास्फीति और आर्थिक सुधार बाजार के लिए प्रमुख कारक होंगे। बाजार निरंतर आर्थिक सुधार और मुद्रास्फीति में एक अस्थायी उछाल के बारे में बहुत आश्वस्त हैं, जिससे सोने और चांदी की कीमतें कुछ हद तक कम हो गई हैं। इस बीच, यूरोपीय शेयर बाजार में लगातार सातवें महीने बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अधिक नीति समर्थन की उम्मीद ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि से आर्थिक जोखिमों को कम कर दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के कुछ अधिकारी भी इस बात पर विचार करना शुरू कर रहे हैं कि संपत्ति की कमी शुरू करना है या नहीं क्योंकि यूरोजोन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के साथ अगस्त में साल-दर-साल उम्मीद से अधिक 3% की वृद्धि दर्ज की है। लेकिन फेड द्वारा रिवर्स पुनर्खरीद 1.19 ट्रिलियन डॉलर की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे पता चलता है कि मुद्रा बाजार में अभी भी धन की अधिक सप्लाई है।

सितम्बर में, बुलियन काउंटर के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है, जहां हम निचले स्तर से कुछ शॉर्ट कवरींग भी देख सकते हैं। चांदी की कीमतों के बहुत अस्थिर रहने की उम्मीद है और उच्च स्तर से भी बिकवाली की उम्मीद है।

## प्रमुख खबरें

- मौद्रिक नीति पर फेड का रुख:** फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा है कि केंद्रीय बैंक इस साल अपनी मासिक बांड खरीद को कम करना शुरू कर सकता है, फिर भी ब्याज दरों में वृद्धि शुरू करने की जल्दी में नहीं होगा। फेड प्रमुख में फेड की वार्षिक जैक्सन होल संगोष्ठी में कहा है कि अर्थव्यवस्था अब फेड के मुद्रास्फीति उद्देश्य की ओर 'काफी आगे तक प्रगति' कर चुकी है, जिसके बारे में पॉवेल और उनके सहयोगियों ने कहा है कि बांड खरीद को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी, जबकि श्रम बाजार ने भी 'स्पष्ट प्रगति' की है। अमेरिका में कर्ज बढ़ रहा है और अमेरिकी यील्ड में अस्थिरता बनी हुई है और डॉलर का उच्च स्तर बना हुआ है जो यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में एक बार फिर से अधिक अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए।
- वैश्विक आर्थिक सुधार को लेकर चुनौतियां बरकरार:** वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने महामारी से पहले की तेजी की पटरी पर लौटने के लिए प्रगति कर रही है, लेकिन सप्लाई की चुनौतियां और तेज मुद्रास्फीति अभी भी रिकवरी की मांग में बाधाएं बनी हुई हैं। अगस्त की शुरुआत में उपभोक्ता सेंटीमेंट लगभग एक दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गई क्योंकि अमेरिकावासी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं, मुद्रास्फीति और कोरोनावायरस मामलों में हालिया उछाल को लेकर अधिक चिंतित थे। उपभोक्ता विश्वास में कमी के कारण आने वाले महीनों में आर्थिक विकास को लेकर मंदी का जोखिम बढ़ गया है क्योंकि उपभोक्ता खर्च पर लगाम लगा सकते हैं। अगस्त में चीन के व्यवसाय और व्यापक अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई क्योंकि कारखानों की गतिविधियां धीमी गति से बढ़ी है, जबकि सेवा क्षेत्र में भी गिरावट हुई, जिससे विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक निकट अवधि के नीति समर्थन की संभावना बढ़ गई। अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पिछले साल के बहुत कमजोर आधार और कोविड-19 मामलों की विनाशकारी दूसरी लहर के बावजूद मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में तेज रिकवरी से मदद मिली।
- बढ़ती मुद्रास्फीति एक प्रमुख चिंता का विषय है:** वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इस साल अमेरिका में भारी प्रोत्साहन खर्च के कारण मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है, जहां जुलाई में उपभोक्ता कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। फेड अधिकारी दोहराते रहे हैं कि मुद्रास्फीति केवल अस्थायी अवस्था है और अमेरिकी आर्थिक विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन हाल ही में जैक्सन होल संगोष्ठी में फेड गवर्नर पॉवेल ने बढ़ती मुद्रास्फीति के बारे में कुछ चिंताएं प्रकट की।
- ईटीएफ होल्डिंग में गिरावट :** ईटीएफ होल्डिंग सीधे कीमतों को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से बाजार में समग्र सेंटीमेंट को प्रभावित करती है। 2020 में, पिछले वर्ष दोनों धातुओं के लिए ईटीएफ प्रवाह काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन कीमतों में बिकवाली के कारण ईटीएफ होल्डिंग में भी गिरावट हुई। सोने के एसपीडीआर होल्डिंग में इस वर्ष अभी तक लगभग 13% की गिरावट हुई है, जबकि चांदी के ईटीएफ आईशेयर होल्डिंग्स में 9% की गिरावट हुई है।

### एमसीएक्स में सोने की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स

### कोमेक्स में सोने की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स

### एमसीएक्स में चांदी की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स


### कोमेक्स में चांदी की कीमतों में बदलाव



सितम्बर 2021 में, सोने की कीमतें 46000-48500 ₹ और चांदी की कीमतें 60000-66000 ₹ के दायरे में कारोबार कर सकती है। जबकि कोमेक्स में सोने की कीमतें 1780-1850 डॉलर और चांदी की कीमतें 23.00-25.50 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है।

- **चीन में सोने की मांग :** उपभोक्ताओं के बीच सोने के आभूषणों की मांग में उल्लेखनीय उछाल के कारण चीन में सोने की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष की पहली छमाही में सोने के आभूषणों जैसे कि सोने के कंगन, पेंडेंट, झुमके और आधुनिक और साथ ही पारंपरिक डिजाइनों से बने हार की बिक्री में वृद्धि देखी गई। उद्योग जगत के लोगों के मुताबिक चीन में हेरिटेज सोने के आभूषणों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। चाउ ताई फूक ज्वैलरी ग्रुप लिमिटेड और लुक फूक होल्डिंग्स इंटरनेशनल लिमिटेड की पसंद ने अपने हेरिटेज सोने के आभूषणों की मांग में वृद्धि हुई है।

## सोने और चांदी का अनुपात



स्रोत: रायटर्स

**एनॉलसिस:** सोना/चांदी का अनुपात, जो सोने को खरीदने के लिए आवश्यक चांदी के औंस की संख्या को मापता है, अगस्त महीने में 71.0 से बढ़कर 75.5 हो गया है। सितम्बर में सोने और चांदी का अनुपात 71-77 के दायरे में रह सकता है।

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402,  
4th Floor, Graham Firth Steel Compound,  
Off Western Express Highway, Jay Coach  
Signal, Goreagon (East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600,  
Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate  
No-4, 5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम.एस.एस एसएमसी कॉम्प्लाइड नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिन्क्रोरीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को लोकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियाँ/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सब्सक्रिप्शन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा ज़रूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोषिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और क्रॉकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विचार हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।